



केन्द्रीय विद्यालय क्र. 01, बलांगीर
KENDRIYA VIDYALAYA NO – 1, BOLANGIR
Application for Admission Session – 2024-2025

Session:2024-25
 Class:
 Category:
 Priority:
 Blood group:
 Gender:

PHOTO

Sr. No: _____ STUDENT'S UNIQUE ID: _____

1. विद्यार्थी का नाम/Name of Student.....
2. ईस्वी संवत् मे जन्मतिथि (अंको मे) /Date of Birth (In figures)
3. आयु (प्रसंगाधीन वर्ष की 1 अप्रैल को) वर्ष माह दिन
 Age (an on 31st MARCH 2024) Year..... Month..... Days.....
4. आधार कार्डनंबर (यदि उपलब्ध हो)/Aadhar Card Number (If available):
5. बच्चेकी संबंधित श्रेणी/ Category of the Child : Gen/SC/ST/OBC-CL/OBC-NCL/EWS/BPL/CwSN
6. माता-पिता का विवरण/ Details of Mother & Father

क्र. सं. S.N.	विवरण/Particulars	माता/Mother	पिता/Father
I.	नाम (स्पष्ट शब्दों में) Name in CAPITAL Letters		
II.	राष्ट्रीयता/ Nationality		
III.	व्यवसाय /Occupation		
IV.	कार्यालय का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष Name of Office, Full Address & Telephone Number		
V.	पूर्णआवासीय पता /Full Address		
VI.	दूरभाष/ Telephone No.		
VII.	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में) Distance from the Vidyalaya (In K.M.)		
VIII.	वार्षिक आय /Annual Income		
IX.	पिछलेसात वर्षों मेंस्थानांतरणों की संख्या No. of Transfers during last 07 years (As on 31.03.2024)		
X.	कर्मचारी कोड (यदि है तो)/Emp. Code (If any)		
XI.	माता-पिता की सेवा श्रेणी (केविसं के प्रवेश दिशा- निर्देशिका 2024-25 के अनुसार) Service Category of the Parent (As per KVS Admission Guidelines 2024-25)		
XII.	ई-मेल आई डी /e-Mail ID		

7. अंतिम विद्यालय जहा पढ़ा हो
 Name & Address of the school last attended with class.....
8. क्या यह केन्द्रीय विद्यालय था या मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त विद्यालय था
 Whether it was a Kendriya Vidyalaya / Recognized/Unrecognized School.....
9. विगत परीक्षा का परिणाम /Result of last Examination
 अंको का प्रतिशत / Percentage of marks
10. जिस कक्षा मे प्रवेश चाहिए /Class to which admission is sought.....

11. लिए जाने वाले विषय /Subject proposed to offer.....

12. क्या स्थानांतरण प्रमाण पत्र संलग्न है ? हाँ /नहीं

Whether the transfer certificates attached? Yes..... No

13. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की संख्या व तिथि

No & Date of transfer certificate

14. मातृ भाषा/Mother tongue..... गृह नगर/Home town.....

DECLARATION BY THE PARENTS

मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ की मारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है | मैं विद्यालय नियमों से प्रतिबद्ध रहूँगा/ रहूँगी | I hereby declare that the above details provided by me are true to the best of my knowledge & belief. I shall abide by the rules of the Vidyalaya.

Date

Signature of Parents

FOR THE OFFICE USE ONLY

1. प्रमाणित किया जाता है मैंने आवेदन पत्र और सम्बद्ध कागजातों की जांच कर ली है | Certified that I have checked the application form and the relevant papers are found in order.

Admission in charge

2. सम्बद्ध कागजों के निरोक्षणोपरांत एवं शुल्क प्रपतोपरांत कक्षा वर्ग में प्रवेश दे |

Please admit to class Section after checking the relevant papers and fee payment.

Date -

PRINCIPAL

दाखिला दिया गया/Admitted to Class Section

प्राप्त धन का विवरण/Details of Amount received:

शुल्क रशीद संख्या तिथि निर्गत

Fee Receipt No Dated Issued

प्रवेश शुल्क /Admission Fee..... शिक्षा शुल्क /Tuition Fee.....

विद्यालय विकास निधि/VVN विज्ञान शुल्क /Science fee.....

योग / Total

कक्षा उपस्थिति पंजिका में नाम दर्ज किया गया |

Name has been entered in the Class Attendance Register.

Class Teacher

प्रमाणित किया जाता है की समस्त प्रविष्टियां छात्र पंजिका में दर्ज की गई एवं शुल्क का भुगतान इस कार्यालय/कक्षा अध्यापक के द्वारा प्राप्त किया गया | Certified that all the entries have been made in this Scholar's register and the ones have been realized by Office Class/Class Teacher.

विद्यार्थी की छात्र पंजिका संख्या /The S. R. No of the Student is खंड / Vol.....

PRINCIPAL:

CERTIFICATE FROM THE EMPLOYER

(Regarding Status of Employment & identification of Admission Category in KVS)

I Sri/Smt./Ms. _____ (Name of the Employer) ,
 designation _____ working in the office of
 _____ department of _____ , government of
 _____ do hereby certify the following in respect of Sri/Smt./Ms.
 _____ (Name of the Employee) whose son/daughter
 _____ (Name of the Child) is seeking admission in Kendriya
 Vidyalaya **NO.1 BOLANGIR** for the academic session **2024-25**

01	Name of the Child for whom admission is sought (in Block Letters)	
02	Class in which admission is sought	
03	Full name of the employee (in Block Letters)	
04	Designation of the employee	
05	Employee Code / Employee Identity No.	
06	Name of the office where the employee is presently posted	
07	Status of Employment (Whether Permanent/ Regular/ Temporary/Contractual/ Part Time/ Adhoc/Daily Wage Basis/Casual -To be written clearly)	
08	This office/organization is Central Government/Central Government Autonomous body/PSU fully or partially financed by Govt. of India/State Government/ Sate Government Autonomous Body/ PSU fully or partially finance by the state govt. (To be written clearly)	
09	Whether the employee is to be considered as an employee of Central Government/ <i>Central Government Autonomous body</i> /PSU fully or partially financed by Govt. of India/State Government/ Sate Government Autonomous Body/ PSU fully or partially finance by the state govt. (Any one of the above to be written clearly)	
10	<p>Please write any one of the following which is applicable i.r.o. the child for whom admission is sought</p> <ol style="list-style-type: none"> Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India. Children of transferable and non-transferable State Government employees. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments. Children from any other category 	
11	Recent Pay/Salary of the Employee with proper Split up	(i) Pay Level : _____ (ii) Pay : _____ (iii) DA : _____ (iv) HRA : _____ (v) Any Other _____ (vi) Any Other : _____ (vii) Total : _____
12	Whether the employee is drawing the consolidated pay	YES / NO

Place: _____
 Date: _____

Signature of the Certifying Authority with Seal

Complete Address of the Office:

Telephone Number: _____

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय),
 एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2020 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे
 _____ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-
 I, _____ (Name) _____ (rank/ designation) of _____ (office), do
 hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2020 I have been transferred _____
 times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

मैं जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए
 अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for
 admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
 Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature

मैं, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____
 (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही
 पाया गया है।

I, _____ (name) _____ (rank/designation) of _____
 (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in
 the office and found correct.

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
 (नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
 Signature of Head of the Office
 (With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
 Complete address and Telephone No. of office _____

टिपण्णी/Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।
 Period of posting/stay at a place should be minimum six months.

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय
श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो -----
(कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में
दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss _____ is the son/daughter of Late Sh./Smt.
_____ who was regular employee of _____
(Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on _____ (date).

स्थान/Place _____
दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

Self Declaration Format

IFather/ Mother of
Master/ Miss.....

...age.....years , resident of

.....

.....

..... (complete Address) Do hereby declare that the information given in admission form of admission in Kendriya Vidyalaya NO.1 BOLANGIR ,ORDNANCE FACTORY BADMAL -767070 and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/ not true at any point of time , admission will be cancelled and I will be liable to legal actions as per guidelines of KVS and any benefit accrued by me or my ward shall be summarily **cancelled** .

Date :

Place:

Signature of the parent / Guardian

MOBILE NO.

E mail ID:.....

SELF DECLARATION
(Distance between residence and School)

I _____ (Name of the Parent) do hereby declare that my present residential address which is given below is situated at a distance of _____ km/s from Kendriya Vidyalaya No.1 Bolangir.

Residential Address:

Name of the Child for whom admission is sought :

Class for which Admission is sought : I (Class One)

Registration No. : _____

Selected under the Category of (Pl. Mark Tick) : RTE/SC/ST/OBC (NCL)/DA/General/SGC

Place : _____

Date : _____

Signature of the Parent

Name : _____

Mobile No : _____

UNDERTAKING
(Submission of SC/ST/OBC Certificate)

I _____ (Name of the Parent) do hereby declare that I will submit the Caste Certificate ((SC/ST/OBC (Non Creamy Layer) issued by the competent authority in the name of my child _____ (Name of the Child) within 03 (Three) months from the date of admission. If I fail to submit the same in the name of my child within this period then I shall have no objection if admission of my Son/Daughter is cancelled.

KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 BOLANGIR

Class -1, Student Data - 2024-25

1. Admission No:
2. Name of the Student:
3. Date of birth:
4. Gender: BOY GIRL
5. Category: General OBC SC ST
6. Admission Priority: Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5
7. Whether admitted under special dispensation quota? Yes No
8. Whether the child is differently abled? Yes No
9. Whether BPL beneficiary? Yes No
10. Whether belongs to EWS / Disadvantaged Group? Yes No
11. If the child is differently abled, please choose the type:
 - I. Hearing impaired
 - II. Orthopedically handicapped
 - III. Visually impaired
12. Father's Qualification:
13. Mother's Qualification:
14. Mother Tongue:
15. No. of years of pre-schooling exposure to the child. If no pre-schooling exposure, choose NIL. :
16. Number of Siblings (excluding the child admitted):
17. Whether the sibling(s) is/are studying in the same KV?
18. Classes in which siblings are studying:
19. Type of Gadgets available (Tick) Desktop computer, Laptop computer, Smart phone with internet connectivity, Smart phone without internet connectivity, Basic phone
20. Number of Gadgets available:
21. Gadget availability - Time:
22. Aadhar NO. of student:
23. Contact number of parents:
24. Email id of parent:
25. Address of Parent:
26. Whether the parents have any specific competence which can be utilized by the KV?:
27. If the parents have any specific competence which can be utilized by the KV and willing to extend support to KV, choose the relevant item:
 - I. Music
 - II. Dance
 - III. Art
 - IV. Sports and game
 - V. Any vocation related competence other than the above
28. If vocation related competence of parents (s.no.5) is chosen above, please specify the area of competence:
29. If the child has any exceptional quality/talent/capacity, please describe:

Class Teacher

Sign of Parent

**KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 OFBL, BOLANGIR
SESSION-2024-25**

CHECKLIST: DOCUMENT TO SUBMIT FOR ADMISSION

1. DATE OF BIRTH CERTIFICATE--- Issued by Competent Authority-
Xerox copy
2. SERVICE CERTIFICATE (FORMAT ATTACHED)- Showing Number
of Transfers during Preceding 7 Years
3. SC/ST/OBC- NCL CERTIFICATE (in the name of child) Issued by
Competent Authority-Xerox Copy
4. PH CERTIFICATE - Issued by Civil Surgeon / Rehabilitation Centre-
Xerox copy
5. BPL / RATION CARDS OF PARENTS—(must be in the name of
parent) Issued by Competent Authority- Xerox copy
6. RESIDENCE PROOF
7. DECLARATION OF DISTACNCE (FORMAT ATTACHED)
8. ADDHAR CARD OF PARENTS-Xerox copy
9. ADDHAR CARD STUDENT-Xerox copy
10. ID PROOF/PAN CARD-Xerox copy
11. VALID E-MAIL ID
12. PHONE NO.(WHATSAPP) & WORKING PHONE NUMBER
13. RESIDENTIAL ADDRESS: Xerox copy
14. Recent salary slip (last Month)- Xerox copy
15. Blood group certificate -Xerox copy
16. A passport size photo

All Xerox copy must be self attested. Original documents are required for verification.

Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained

Signature of parent:..... Date:

Name & Signature of checker.....

PRINCIPAL